



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

8 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 283 राँची, शुक्रवार,

29 मार्च, 2019 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----  
संकल्प

28 मार्च, 2019

**संख्या--5/आरोप-1-43/2017-1503 (HRMS)--** चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री सुनील कुमार प्रजापति, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-बोकारो), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बोड़ाम, पूर्वी सिंहभूम के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में मनरेगा अधिनियम की धारा-23, धारा-25, धारा-27(2) का उल्लंघन करने, सरकार को 4,93,255/- (चार लाख तिरानवे हजार दो सौ पचपन रुपये) की राजस्व की क्षति पहुँचाने तथा सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण करने संबंधित आरोप, जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-962, दिनांक 03.04.2017 के माध्यम से प्राप्त उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक-43/जि०ग्रा०, दिनांक 06.01.2017 द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री प्रजापति के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री प्रजापति को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री प्रजापति द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री प्रजापति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SUNIL KUMAR PRAJAPATI JHK/JAS/184	श्री सुनील कुमार प्रजापति, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-बोकारो), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बोड़ाम, पूर्वी सिंहभूम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972

-----